

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- फेड ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.5% की वृद्धि की है जो 22 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है।
- सरकार के अनुसार, भारत में अनाज की कुल सरप्लस उपलब्धता के साथ काफी आरामदायक स्थिति में है और स्टॉक के अगले एक वर्ष के लिए न्यूनतम आवश्यकता से अधिक होने की उम्मीद है।
- लगातार पांच वर्षों की रिकॉर्ड उत्पादन के बाद मार्च के मध्य में तापमान में अचानक वृद्धि के कारण 2022 में भारत का गेहूं उत्पादन कम होकर 105 मिलियन टन होने की संभावना है।
- भारत सरकार गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है क्योंकि दुनिया को अनाज की आपूर्ति करने के बजाय घरेलू खपत को प्राथमिकता देना चाह रही है।
- इंडोनेशिया द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद, देश में सभी खाद्य तेलों का वर्तमान स्टॉक लगभग 21 लाख टन है और मई, 2022 में लगभग 12 लाख टन पाइपलाइन में है। इस प्रकार

कम मांग वाली अवधि को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है।

- भारतीय चीनी मिल संगठन के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू हुए चालू सीजन में 30 अप्रैल 2022 तक चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 42 लाख टन या 14% बढ़कर 342.37 लाख टन हो गया है।
- इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने कहा कि वैश्विक तांबे के बाजार में इस साल 142,000 टन और 2023 में 352,000 टन का सरप्लस रहने की उम्मीद है।
- खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, भारत खाद्य तेलों पर करों में कटौती कर सकता है, जबकि इंडोनेशिया भी 15 मई 2022 तक निर्यात फिर से शुरू कर सकता है।
- ओपेक ने जून में अपने उत्पादन लक्ष्य को प्रति दिन 432,000 बैरल बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	29.04.22	05.05.22	बदलाव (%)
मक्का	2165.00	2244.00	3.65%
कॉटनऑयलसीडकेक	2791.00	2849.00	2.08%
कॉटन	44990.00	45510.00	1.16%
धान	4511.00	4533.00	0.49%
कपास	1735.00	1742.00	0.40%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	29.04.22	05.05.22	बदलाव (%)
ग्वारगम	12494.00	11644.00	-6.80%
सोयामील	63150.00	59100.00	-6.41%
धनिया	12180.00	11470.00	-5.83%
जीरा	21885.00	20780.00	-5.05%
हल्दी	8510.00	8108.00	-4.72%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	29.04.22	05.05.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	555.80	666.00	19.83%
रबर	16957.00	17267.00	1.83%
कच्चा तेल	8117.00	8265.00	1.82%
कॉटन	45710.00	46540.00	1.82%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	29.04.22	05.05.22	बदलाव (%)
निकल	2474.20	2336.40	-5.57%
ज़िंक	343.60	330.55	-3.80%
एल्युमीनियम	252.90	243.95	-3.54%
तांबा	782.85	762.15	-2.64%
सोना	51754.00	50899.00	-1.65%

## साप्ताहिक समीक्षा

यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर अधिक प्रतिबंध लगाने की बात के बीच डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण दूसरे सप्ताह भी सीआरबी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी द्वारा बुधवार को अपने नीतिगत फैसले में अपनी ब्याज दर बढ़ाकर 1% करने के बाद अमेरिकी डॉलर सूचकांक पांच साल के उच्च स्तर से गिर गया। दरों में यह बढ़ोतरी 2000 के बाद सबसे बड़ी थी, लेकिन फेड के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बैंक भविष्य में दरों में 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी पर विचार नहीं कर रहा है। डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण सोना और चांदी दोनों की कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी हुई और दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए। एमसीएक्स पर सोना की कीमत 51250 के ऊपर और चांदी की कीमत 64000 के करीब बंद हुई। कम स्टॉक के बीच प्रतिबंधों की बात पर एनर्जी काउंटर में एक बार फिर से आग लग गई। अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमतों तेजी जारी रही, और वायदा की कीमतें 8 डॉलर से अधिक हो गई क्योंकि भंडार को लेकर चिंताएं गर्मी, जिस दौरान मांग अधिक होती है, से पहले बढ़ती हैं। अमेरिकी नेचुरल गैस की कीमतें 9% से अधिक उछाल के साथ 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। वर्ष के इस समय के लिए अमेरिकी गैस का भंडार पिछले वर्ष की तुलना अब सामान्य से अनुमानतः 17% कम है क्योंकि निर्यात नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और उत्पादक नया उत्पादन नहीं कर रहे हैं। भंडार में यह गिरावट तब आती है जब मौसम के पूर्वानुमान मई की शुरुआत में देश के कुछ हिस्सों में असामान्य रूप से उच्च तापमान दिखाते हैं, जिसका मतलब अमेरिकी एयर कंडीशनिंग सीजन की पहले ही शुरुआत होगी, जो नेचुरल गैस की बढ़ती मांग का संकेत है। इसके अलावा, तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। छह महीने में कच्चे तेल पर प्रतिबंध सहित रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के कारण कीमतों को मदद मिली। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा प्रतिबंध प्रस्ताव घोषित किया गया था और प्रभावी होने के लिए 27 यूरोपीय संघ के देशों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन की आवश्यकता है। इसमें छह महीने में रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति और 2022 के अंत तक रिफाईंड उत्पादों पर प्रतिबंध को शामिल करना शामिल है। और चीन में मंदी के मुद्दे और फेड की बैठक से पहले ही बेस मेटल की कीमतों में तेज गिरावट हुई। सप्ताह के दूसरे भाग में डॉलर इंडेक्स में गिरावट ने इस काउंटर में खरीदारी को प्रेरित किया, लेकिन कुल मिलाकर कीमतें गिरावट के साथ ही बंद हुईं। एलएमई ने रूस के उत्पादों पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद रूसी-उत्पादित लेड को अपने गोदामों में अनुमति देना बंद कर दिया है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े धातु बाजार से रूसी लेड प्रभावी रूप से बंद हो गया है।

कृषि कमोडिटीज में, एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई और कीमतें 46870 की नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। अमेरिकी कपास की अधिक विदेशी मांग और प्रतिकूल मौसम से आपूर्ति को लेकर चिंता के संकेतों से आईसीई में कॉटन वायदा करीब ग्यारह साल के उच्च स्तर 155 सेंट प्रति बुशल पर पहुंच गया। ग्वार काउंटर फिर से नीचे फिसल गया। पिछले एक महीने में कीमतों में करीब 9 फीसदी की गिरावट हुई है। मसालों के लिए यह एक बार फिर मंदी का सप्ताह था क्योंकि मांग कम हो रही थी जबकि आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई थी। जीरे की निर्यात मांग कम है क्योंकि कोविड से संबंधित लॉक डाउन के कारण कटेनरों की कमी हुई है।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	29.05.22	05.05.22	(%)
जौ	जयपुर	3,209.60	3,213.55	0.12
चना	दिल्ली	5,000.00	5,051.80	1.04
धनिया	कोटा	12,247.95	11,975.55	-2.22
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,614.65	1,600.40	-0.88
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,185.05	1,173.95	-0.94
ग्वारसीड	जोधपुर	6,350.00	6,173.45	-2.78
ग्वारगम	जोधपुर	12,600.00	11,972.85	-4.98
जीरा	ऊंझा	21,792.45	21,418.30	-1.72
सरसों	जयपुर	7,473.00	7,400.25	-0.97
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,635.00	1,610.00	-1.53
सोयाबीन	इंदौर	7,648.15	7,400.15	-3.24
हल्दी	निजामाबाद	8,094.45	8,032.70	-0.76
गेहूं	दिल्ली	2,316.95	2,295.70	-0.92
कॉटन	कड़ी	44,460.05	44,699.10	0.54
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,029.40	3,072.65	1.43

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	29.04.22	05.05.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	3,052.50	2,916.00	-4.47
तांबा	LME	नकद	9,769.50	9,489.50	-2.87
लेड	LME	नकद	2,260.50	2,277.00	0.73
निकल	LME	नकद	31,771.00	30,114.00	-5.22
जिंक	LME	नकद	4,107.00	3,904.50	-4.93
सोना	COMEX	जून	1,911.70	1,875.70	-1.88
चांदी	COMEX	जुलाई	23.08	22.44	-2.77
लाइट कूड	NYMEX	मई	104.69	108.26	3.41
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	7.244	8.783	21.25

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	29.04.22	05.05.22	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	16.85	16.47	-2.26
सोया तेल	CBOT	जुलाई	84.18	81.85	-2.77
कॉटन	ICE	जुलाई	145.63	148.76	2.15
सीपीओ	BMD	जुलाई	7,104.00	6,752.00	-4.95

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	29.04.22 क्वांटिटी	05.05.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	81	81	0
जौ	मी.टन	100	100	0
कैस्टर सीड	मी.टन	17722	29304	11582
धनिया	मी.टन	8389	9293	904
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	72098	69970	-2128
ग्वारगम	मी.टन	21552	21582	30
ग्वारसीड	मी.टन	34143	33994	-149
जीरा	मी.टन	7640	8366	726
मक्का	मी.टन	1086	1086	0
सोयाबीन	मी.टन	1383	1383	0
हल्दी	मी.टन	3296	3441	145

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	29.04.22 क्वांटिटी	05.05.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	6,077.86	5,273.14	-805
तांबा	मी.टन	1,698,337.00	1,562,235.00	-136102
सोना	किग्रा	356.00	355.00	-1
सोना गिनी	किग्रा	14,096.00	14,096.00	0
सोना मिनी	किग्रा	128,600.00	170,800.00	42200
लेड	किग्रा	2,483.88	2,368.61	-115
निकल	किग्रा	314,255.00	201,590.00	-112665
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	66,122.84	54,068.10	-12055
जिंक	मी.टन	939.66	862.34	-77

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 29.04.22	स्टॉक की स्थिति 05.05.22	अंतर
एल्युमीनियम	571,625	579,375	7,750
तांबा	150,850	154,475	3,625
निकल	72,642	72,384	-258
लेड	38,525	38,100	-425
जिंक	96,275	94,075	-2,200



## ट्रेड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेड बदलाव की तिथि	ट्रेड	भाव के ट्रेड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जून	20995.00	02.05.22	मंदी	22000.00	-	22100.00	22150.00
NCDEX	ग्वारसीड	जून	6113.00	01.04.22	तेजी	6400.00	5700.00	-	5650.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जून	2915.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	3070.00	3100.00
MCX	रबर	मई	17267.00	14.12.21	मंदी	17800.00	-	17500.00	17550.00
MCX	मेंथा ऑयल	मई	1076.50	31.03.22	तेजी	1070.00	1045.00	-	1040.00
MCX	बुलडेक्स	मई	14536.00	07.02.22	तेजी	14100.00	14250.00	-	14200.00
MCX	चांदी	जुलाई	62336.00	07.02.22	तेजी	61900.00	61500.00	-	61000.00
MCX	सोना	जून	50899.00	07.02.22	तेजी	48200.00	50150.00	-	50000.00
MCX	मेटलडेक्स	मई	20342.00	16.12.21	मंदी	21000.00	-	20850.00	20900.00
MCX	तांबा	मई	762.15	25.04.22	मंदी	790.00	-	806.00	810.00
MCX	लेड	मई	184.25	25.04.22	मंदी	187.00	-	189.50	190.00
MCX	जिंक	मई	330.55	25.04.22	मंदी	365.00	-	356.00	357.00
MCX	निकल	मई	2336.40	25.04.22	मंदी	2500.00	-	2570.00	2600.00
MCX	एल्युमिनियम	मई	243.95	25.04.22	मंदी	262.00	-	258.00	260.00
MCX	एनर्जीडेक्स	मई	10241.00	15.02.22	तेजी	7200.00	9750.00	-	9700.00
MCX	कच्चा तेल	मई	8265.00	15.02.22	तेजी	6800.00	7680.00	-	7650.00
MCX	नेचुरल गैस	मई	666.00	15.02.22	तेजी	320.00	610.00	-	600.00

\*05/05/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना के ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### सोना ( जून ) एमसीएक्स



### सोना ( जून ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में सोना (जून) कॉन्ट्रैक्ट 05 मई 2022 को 50958.00 रूप पर बंद हुआ। 08 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 56163.00 रूप के उच्च स्तर पर था। 28 जनवरी 2022 को 47534.00 रूप के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 42.92 है। 50700.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 52000.00 रूप के टारगेट के लिए 51100.00 रूप के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### ग्वारसीड ( जून ) एनसीडीईएक्स



### ग्वारसीड ( जून ) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड (जून) कॉन्ट्रैक्ट 05 मई 2022 को 6113.00 रूप पर बंद हुआ। 07 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 6800.00 रूप के उच्च स्तर पर था जबकि 06 मई 2022 को 6070.00 रूप के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 28.361 है। 5875.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 6400.00 रूप के टारगेट के लिए 6050.00 रूप के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### नेचुरल गैस ( मई ) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस ( मई ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (मई) कॉन्ट्रैक्ट 05 मई 2022 को 666.00 रूप पर बंद हुआ। 06 मई 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 688.90 रूप के उच्च स्तर पर था। 28 फरवरी 2022 को 338.60 रूप के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 77.932 है। 630.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 740.00 रूप के टारगेट के लिए 665.00 रूप के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।





## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

पिछले हफ्ते मसालों में तेज गिरावट देखी गई क्योंकि लगातार ऊंची कीमतों पर मांग कम हो रही है जबकि निर्यात मांग में भी सुधार नहीं हो रहा है। इसके अलावा, भौतिक बाजार में अधिकांश मसालों की कुल आवक मौसम के अनुसार सामान्य रही है। निर्यात और घरेलू मांग कम होने से हल्दी वायदा (मई) की कीमतें 2022 के निचले स्तर पर फिसल गईं और 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अब 7900 का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्तर से नीचे टूटने पर कीमतें 7000 के स्तर तक कम हो सकती हैं और 8500 पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है। वर्तमान में, निर्यात मांग सामान्य है, लेकिन कीमतों में गिरावट के साथ आवक कम हो रही है। स्थानीय स्तर पर अधिक कीमतों और अधिक खपत के कारण इस सीजन में हल्दी का निर्यात कम रहा है जबकि उत्पादन पिछले साल की तुलना में अच्छा है। फरवरी में, हल्दी का निर्यात पिछले साल के 12,575 टन की तुलना में 17% कम होकर 10400 टन हुआ है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान हल्दी का निर्यात पिछले साल की तुलना में 20% कम होकर 1.37 लाख टन हुआ है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 8.3% अधिक है।

उच्च स्तर पर बिकवाली के दबाव और निर्यात मांग कम होने से जीरा (मई) की कीमतें लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुईं। अगर कीमतें 20500 के स्तर से नीचे बनी रहती हैं, तो 19350 तक लुढ़क सकती है। जीरे की निर्यात मांग कम है क्योंकि कोविड से संबंधित लोक डाउन ने कटनरों की कमी पैदा कर दी है। पिछले एक महीने में, जीरा की कीमतों में 8.4% से अधिक की गिरावट हुई है, जबकि कम उत्पादन अनुमानों के कारण कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 50.3% अधिक हैं। लेकिन आने वाले हफ्तों में कुल मिलाकर सेंटीमेंट बेहतर रहने की संभावना है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवक कम होगी। व्यापारियों को 2021/22 में 5.0-6.0 मिलियन बैग (1 बैग=55 किग्रा) पर जीरा उत्पादन की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 8.0-8.5 मिलियन बैग से कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2022 में जीरा का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 18300 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 23.6% कम होकर 14000 टन हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 (अप्रैल-फरवरी) की अवधि में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 23% घटकर 2.02 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल 2.62 लाख टन हुआ था।

धनिया वायदा (मई) की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुईं और 5 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गईं क्योंकि उच्च कीमतों पर भौतिक मांग प्रभावित हुई है। पिछले हफ्ते कीमतें 11700 के स्तर से नीचे टूट गईं। अब कुछ खरीदारी गतिविधियों की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि पिछले एक महीने में कीमतें लगभग 10% कम हो गई हैं। इससे पहले, प्रोसेसर और व्यापारी अपनी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार खरीद रहे हैं क्योंकि बाजार की कीमतें पिछले साल की तुलना में उच्च स्तर पर थीं। वर्तमान में उत्पादन में कमी की आशंका से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 70.3% अधिक हैं और जनवरी 2022 के बाद से 30.4% अधिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2022 में धनिया का निर्यात 5.5% बढ़कर 3320 टन हो गया, जो पिछले साल 3150 टन था। जबकि वित्त वर्ष 2021/22 (अप्रैल-फरवरी) में निर्यात पिछले वर्ष के 51,500 टन की तुलना में 13.7 फीसदी घटकर 44,450 टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 11% अधिक है।

### अन्य कमोडिटीज

घरेलू कपड़ा उद्योगों से लगातार मांग के कारण कॉटन वायदा (मई) की कीमतें फिर से 47060 के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। इसी तरह, अमेरिकी कपास की अधिक निर्यात मांग और प्रतिकूल मौसम से आपूर्ति की चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। अब कीमतें 43500-47000 के दायरे में कमीबेश कारोबार करेंगी। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बेहतर घरेलू और निर्यात मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 112.2% अधिक हैं और वर्ष 2022 में लगभग 36.5% बढ़ी है। इस बीच, ऐसी अटकलें हैं कि भारत कपास के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि हाल ही आयात शुल्क में कटौती कीमतों को कम करने में सफल नहीं रही हैं, जबकि घरेलू मिलों के लिए कपास की अनुपलब्धता भी सितंबर-अक्टूबर में नई फसल आने तक चिंता का विषय होगी। इस बीच, सीएआई ने भी अप्रैल में कपास उत्पादन के अनुमान को पिछले 343 लाख गांठ के अनुमान की तुलना में 8 लाख गांठ कम होकर 335.18 लाख गांठ कर दिया।

उच्च स्तर पर मुनाफावसुली के कारण ग्वारसीड वायदा (मई) की कीमतें पिछले सप्ताह 8 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गईं। पिछले एक महीने में कीमतों में लगभग 8% की गिरावट हुई है और साप्ताहिक चार्ट पर अगला प्रमुख सपोर्ट 5700 के स्तर पर है। यदि कीमतें सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती हैं तो 5500/5300 के स्तर तक गिरावट हो सकती है। मानसून के सामान्य रहने के पूर्वानुमान और आने वाले सीजन में बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी की उम्मीद से कीमतों में गिरावट हो रही है लेकिन निर्यात मांग से कीमतों को समर्थन मिल सकता है। वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 50% अधिक हैं। अमेरिकी तेल रिगों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 210 बढ़कर 552 हो गई है। फरवरी 2022 में, ग्वारगम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 55.6% बढ़कर 31000 टन हो गया है, जबकि 2021/22 (अप्रैल-फरवरी) में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 40% बढ़कर 2.95 लाख टन हुआ है।

पिछले हफ्ते, कैस्टरसीड वायदा (मई) की कीमतें 4 सप्ताह के निचले स्तर पर फिसल गईं लेकिन जल्दी रिकवरी कर गईं। अब कीमतें 6950-7500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कम उत्पादन अनुमान के कारण वर्तमान में अरंडी की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 39% अधिक हैं, जबकि इस वर्ष कीमतों में 22% से अधिक की वृद्धि हुई है। अरंडी की मांग-आपूर्ति का संतुलन तेजी के पक्ष में है क्योंकि 2021-2022 के लिए अनुमानित खपत लगभग 19-20 लाख टन है जबकि उत्पादन और कैरी ओवर स्टॉक मिलाकर कुल सप्लाई 20-21 लाख टन है। ऊंची कीमतों के बावजूद निर्यात पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इस सीजन में कीमतों में 30% की वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2011/22 में अरंडी के तेल का निर्यात 4.5% बढ़कर 6.55 लाख टन हो गया। लेकिन जनवरी-मार्च अवधि के दौरान निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 17% कम होकर 1.4 लाख टन हुआ है। मार्च 2022 में कैस्टर मील का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 10% बढ़कर 32771 टन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 में कुल निर्यात पिछले वर्ष के 4.20 लाख टन से लगभग 4.3% घटकर 4.01 लाख रह गया।

### सर्पाफा

सर्पाफा की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख पर अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड दोनों में तेजी दर्ज की गई है, और निवेशकों अब अमेरिकी नौकरियों की नवीनतम रिपोर्ट का इंतजार है। डॉलर, जो आम तौर पर सोने के विपरीत होता है, लगातार पांचवें सप्ताह मजबूत हुआ है। बेंचमार्क अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड नवंबर 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद फिर से बढ़ गई। फेड ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क दर को आधा प्रतिशत बढ़ा दिया, जो 22 वर्षों में सबसे अधिक है, लेकिन चेयरमैन जेरोम पावेल ने आने वाली बैठक में स्पष्ट रूप से 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि को खारिज कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक दिन बाद अपनी ब्याज दर बढ़ाकर 1% कर दी। वृद्धि को लेकर चिंता, भू-राजनीति और मुद्रास्फोति के कारण सोने की मांग को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख से अगले कुछ महीनों तक सर्पाफा पर दबाव बना रहेगा। भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में अस्थिरता रही है और कीमतें अप्रैल में 1,890 डॉलर से 1,990 डॉलर प्रति औंस के बड़े दायरे में कारोबार करती रही है। मार्च में अमेरिकी मुद्रास्फोति 8.5% रही है और इसने बड़े पैमाने पर मुद्रास्फोति के खिलाफ फेडरल रिजर्व की लड़ाई को अधिक तेज कर दिया। बैंकों की आक्रामक बयानबाजी के कारण डॉलर लगातार मजबूत हुआ है और सोने की कीमतों पर असर डाला है। तकनीकी स्तर पर कोमेक्स में सोने की कीमतें एक बड़े दायरे में कारोबार करती रह सकती हैं और कीमतों को 1840 डॉलर के स्तर के पास सपोर्ट जारी रह सकता है और 1940 डॉलर पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में नरमी का रुझान रह सकता है और बिकवाली की सलाह दी जाती है और कीमतों को 49800 के पास सपोर्ट और 52400 के पास रजिस्ट्रेंस रह सकता है। चांदी की कीमतें 60000-64000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं और बिकवाली हो सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

मार्च की शुरुआत के बाद से तेल की कीमतें पहली बार लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है, क्योंकि यूरोपीय संघ रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका ने कहा कि वह अपने रणनीतिक भंडार को फिर से भर देगा। डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें इस सप्ताह 4% बढ़कर 109 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए मास्को को दंडित करने के लिए साल के अंत तक रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने का इरादा किया है, लेकिन इस योजना का हंगरी ने विरोध किया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह इस गिरावट के साथ ही देश के अपने रणनीतिक भंडार को फिर से भरने के लिए कच्चे तेल की फिर से खरीददारी शुरू करेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेट्रोल की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए इस साल की शुरुआत में भंडार में से बड़ी निकासी की घोषणा की। अमेरिकी पंप की खुदरा कीमतें रिकॉर्ड के करीब बनी हुई हैं। इस साल तेल की कीमतों में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है क्योंकि यूक्रेन के आक्रमण से कमोडिटी बाजारों में वृद्धि हुई है। इस सप्ताह की बढ़त पिछले चार सप्ताह में तीसरी बढ़त है जो चीन में कोविड -19 के प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन के कारण खपत को नुकसान की चिंता के बावजूद हुई है। इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतें 8000-8600 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। अमेरिकी नेचुरल गैस की कीमतें लगभग 14 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर कहर बरपाया है। अमेरिका में उत्पादन कम है, और भंडारण में गैस पिछले वर्ष की तुलना में 21% कम है। इस गर्मी में बिजली की अधिक मांग के कारण गैस भंडार में कमी होने की संभावना है। इस सप्ताह में नेचुरल गैस की कीमतें 640-710 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं क्योंकि चीन में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन और उच्च ब्याज दर के माहौल में वैश्विक आर्थिक विकास के धीमा होने की आशंका से जोखिम वाली संपत्तियों के लिए निवेशकों की ओर से मांग कम हो गई है। चीन के शंघाई और बीजिंग में प्रतिबंध बढ़ाकर कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। अप्रैल में चीन में मैनुफैक्चरिंग और सेवा गतिविधि भी कोविड-19 के प्रकोप के कारण धीमी हो गई, जिससे बेस मेटल की मांग को लेकर चिंता बढ़ गई है। मार्च में जर्मन औद्योगिक ऑर्डर उम्मीद से अधिक कम हो गया है। मुख्य रूप से यूक्रेन में युद्ध के कारण विदेशों से ऑर्डर में कमी होने से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मैनुफैक्चरिंग मांग प्रभावित हुई है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में इस्पात निर्माण और खनन कंपनी एवराज पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, उम्मीद है कि चीन कोविड-19 लॉकडाउन के नुकसान का मुकाबला करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण को आगे बढ़ाएगा। तांबे की कीमतें 740-780 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एलएमई-अनुमोदित गोदामों में तांबे का स्टॉक 14,325 टन बढ़कर 168,800 टन हो गया। स्टॉक फरवरी, जब 2005 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, की तुलना में दोगुने से अधिक हो गया है। धातु प्रसंस्करण संयंत्रों के उपग्रह निगरानी के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष उत्पादक चीन में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन सख्त होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर तांबा और निकल गलाने की गतिविधि अप्रैल में बढ़ी है। निकल की कीमतें 2250-2450 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 235-255 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम 235-255 के दायरे में कारोबार कर सकता है। रियो टिटो ने कहा है कि यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के बाद रूसी एल्युमीनियम उत्पादक रुसल पर किसी भी प्रतिबंध से एल्युमीनियम बाजार में भारी गिरावट आएगी और कीमतों में तेजी आएगी। जिंक की कीमतें नरमी के रूझान के साथ 317-335 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लेड की कीमतें 180-190 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

## तांबा .....हरित अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर

औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक स्तर पर उपयोग को देखते हुए तांबे को अक्सर आर्थिक मांग के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है। इस साल तांबे की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है क्योंकि हरित अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक प्रयासों के कारण इस धातु की मांग, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में किया जाता है, आंशिक रूप से बढ़ने की उम्मीद है। कई उद्योगों में निरंतरता और दक्षता के प्रयासों के लिए दुनिया की बढ़ती प्रतिबद्धता के कारण नए तरीके अपनाने में तांबा अग्रणी है।

### खदानों से तांबे का उत्पादन


- अंतर्राष्ट्रीय तांबा अध्ययन समूह ने नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार तीन साल के उदरार के बाद, विश्व स्तर पर खदानों से तांबे का उत्पादन पिछले साल 2.4% बढ़ा है और 2022 और 2023 दोनों में लगभग 5% की वृद्धि की उम्मीद है।
- कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंध और कार्यबल की अनुपलब्धता ने 2022 की शुरुआत में कई खदानों में उत्पादन को बाधित रखा।
- फिर भी, इस वर्ष विश्व स्तर पर नई और विस्तारित खदानों से अतिरिक्त उत्पादन के साथ-साथ महामारी के संबंध में सामान्य स्थिति में सुधार से खदानों से उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- अधिकांश परियोजनाएं कसेन्ट्रे उत्पादन करने वाली खदानें हैं जिसके परिणामस्वरूप 2022 और 2023 में विश्व स्तर पर कसेन्ट्रे उत्पादन में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए।
- 2022 में मुख्य रूप से कांगो और, कुछ हद तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तार और नई परियोजनाओं विकास के कारण सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन-इलेक्ट्रोविनिंग उत्पादन के पिछले साल की गिरावट से रिकवर करने और 2023 में बढ़ने की उम्मीद है।

### रिफाइंड तांबे का उत्पादन

- तीन साल की सीमित वृद्धि के बाद, विश्व स्तर पर रिफाइंड तांबे का उत्पादन 2022 में लगभग 4.3% और 2023 में 3.6% बढ़ने का अनुमान है।
- 2022 और 2023 में मुख्य रूप से चीनी इलेक्ट्रोलाइटिक क्षमता के निरंतर विस्तार और डी.आर. कांगो में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन-इलेक्ट्रोविनिंग ऑपरेशन के विस्तार के कारण विश्व स्तर पर रिफाइंड तांबे के उत्पादन में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।

### तांबे का वैश्विक उपयोग

- 2022 विश्व स्तर पर तांबे के उपयोग में वृद्धि को संशोधित कर 1.9% कर दिया गया है। यह कमजोर वैश्विक आर्थिक आउटलुक के कारण हुआ है। मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन की स्थिति के परिणामस्वरूप और चीन में कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन का देश की मैनुफैक्चरिंग गतिविधि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- चीन स्पष्ट रिफाइंड तांबे का उपयोग 2022 में लगभग 1% बढ़ने की उम्मीद है।
- मुख्य रूप से चीन में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि में सामान्य सुधार और प्रमुख रूप से तांबे के अंतिम-उपयोग वाले क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण 2023 में विश्व स्तर पर रिफाइंड तांबे के उपयोग में लगभग 2.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- आईसीएसजी का अनुमान है कि 2022 में लगभग 140,000 टन सरप्लस रहने की उम्मीद है जो बाजार में अधिक आपूर्ति आने की संभावना से 2023 में लगभग 350,000 न सरप्लस हो सकता है।



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय तांबा अध्ययन समूह

तांबा आर्थिक गतिविधि और आधुनिक तकनीकी समाज के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कारों की ओर वैश्विक रूझान के कारण लंबी अवधि में तांबे की मांग को मदद मिलती रहेगी। लेकिन प्रमुख उपभोक्ता चीन में निरंतर कोविड-19 प्रतिबंध, निरंतर सैन्य संघर्ष और कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति न केवल यूरोप की आर्थिक सुधार बल्कि वैश्विक सुधार के भी जोखिम में रहने की संभावना है। अप्रैल में चीन में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि कम हुई है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1-1/2 से अधिक वर्षों में अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ी और यूरो क्षेत्र में ठप हो गई।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेवा (रिसर्च एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेवा द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्योरिटीज एन एन एन के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉन्सल्टेंट या सलाह की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।